

## ब्रेन इंटरनेशनल स्कूल

विषय-हिंदी

कक्षा- सात

Assignment जून-2021-22

**प्रश्न-1 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए।**

वास्तव में हृदय वही है जो कोमल भावों और स्वदेश प्रेम से ओतप्रोत हो। प्रत्येक देशवासी को अपने वतन से प्रेम होता है, चाहे उसका देश सूखा, गर्म या दलदलों से युक्त हो। देश-प्रेम के लिए किसी आकर्षण की आवश्यकता नहीं होती बल्कि वह तो अपनी भूमि के प्रति मनुष्य मात्र की स्वाभाविक ममता है। मानव ही नहीं पशु-पक्षियों तक को अपना देश प्यारा होता है। संध्या समय पक्षी अपने नीड़ की ओर उड़े चले जाते हैं। देश-प्रेम का अंकुर सभी में विद्यमान है। कुछ लोग समझते हैं कि मातृभूमि के नारे लगाने से ही देश-प्रेम व्यक्त होता है। दिन-भर वे त्याग, बलिदान और वीरता की कथा सुनाते नहीं थकते लेकिन परीक्षा की घड़ी आने पर भाग खड़े होते हैं। ऐसे लोग स्वार्थ त्यागकर जान जोखिम में डालकर देश की सेवा क्या करेंगे? आज ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है।

- क) देश प्रेम का अंकुर कहाँ विद्यमान रहता है?
- ख) देशप्रेम और मानव हृदय का संबंध स्पष्ट कीजिए।
- ग) पक्षी अपने देश के प्रति अपना लगाव कैसे प्रकट करते हैं?
- घ) दिए गए गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए ।
- ड.) 'वीरता' शब्द का एक पर्यायवाची शब्द लिखिए ।

**प्रश्न-2 निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।**

- क) 'मिठाईवाले' का व्यक्तित्व कैसा था?
- ख) कठपुतली को अपने पाँवों पर खड़ी होने की इच्छा है लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी हो सकती ?
- ग) कठपुतली गुस्से से क्यों उबल पड़ी?
- घ) 'मिठाईवाला' क्यों व्यथित था ?
- ड.) 'कठपुतली' कविता का प्रतिपादय लिखिए।

**प्रश्न 3-निम्न वाक्यों में से संज्ञा शब्द रेखांकित करके उनके भेद भी लिखें।**

- क) पुस्तकें पढ़ना अच्छी आदत होती है ।
- ख) मेरी किसी से शत्रुता नहीं है ।

प्रश्न-4 निम्न शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए ।

क) अच्छा      ख) कायर

प्रश्न-5 निम्न शब्दों के दो - दो पर्यायवाची शब्द लिखिए।

क) खटमल      ख) पशु

प्रश्न-6 निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए।

क) आर्य      ख) गुणा

प्रश्न-7 कोरोना काल में हाथ धोने के लाभ बताते हुए मित्र को पत्र लिखें ।

प्रश्न-8 निम्नलिखित विषय पर दिए गए संकेत-बिंदुओं के आधार पर लगभग 80-100 शब्दों में अनुच्छेद लिखें।

### आज की आवश्यकता-संयुक्त परिवार

संकेत बिन्दु- एकल परिवार का बढ़ता चलन, एकल परिवार और वर्तमान समाज, संयुक्त परिवार की आवश्यकता, बुजुर्गों की देखभाल, एकाकीपन की जगह नहीं।